

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम उत्तर प्रदेश,

प्रयागराज

का0आ0संख्या:-परीक्षा/ वरि०लेखाकार/प्रो०परीक्षा/2022/89617

दिनांक: 09.02.2022

कार्यालय आदेश

विषय :- वरिष्ठ लेखाकारों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा अप्रैल-2022.

उपरोक्त विशयक परीक्षा मुख्यालय के दिनांक 09.08.88 के परिपत्र संख्या 10 ऑफ 1988 के निर्देशानुसार अप्रैल माह में आयोजित होने वाली वरिष्ठ लेखाकारों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा दिनांक 06.04.2022 को आयोजित किया जायेगा ।

1. वरिष्ठ लेखाकार जिन्होंने एक अप्रैल-2021 को एक वर्ष की निरंतर सेवा की हो और सहायक पर्यवेक्षक (लेखा) जिन्होंने वरिष्ठ लेखाकार के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो वरिष्ठ लेखाकार प्रोत्साहन परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की संख्या असीमित है ।
2. संबंधित परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरान्त अभ्यर्थी को उस माह की पहली तारीख से जिस माह में परीक्षा होगी वरिष्ठ लेखाकार के वेतनमान में एक अग्रिम वेतन वृद्धि मंजूर की जायेगी ।
3. इस परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण नहीं मिलेगा। निर्धारित की गयी पुस्तकें समूल्य प्रकाशन है तथा वे उन्हें प्राप्त करने की स्वयं व्यवस्था करेंगे ।
4. संबंधित परीक्षा में मात्र एक प्रश्नपत्र 'वित्त लेखा एवं आंतरिक लेखा परीक्षा' पर आधारित प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और इसमें नकारात्मक अंकन नहीं होगा । समय अवधि 2:30 (दोई) घंटे की होगी ।
5. परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाना आवश्यक है ।
6. प्रोत्साहन परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार होगा:
 - (i) सी०ए०जी० (डी०पी०सी०) अधिनियम।
 - (ii) भारत सरकार के खातों और लेखा परीक्षा का परिचय।
 - (iii) भारत का संविधान।
 - (ए) भाग V : संघ
 - (i) अध्याय 2 संसद में वित्तीय मामलों में धन विधेयक और प्रक्रिया।
 - (ii) अध्याय 5 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक।
 - (बी) भाग VI: राज्य
वित्तीय मामलों में प्रक्रिया अध्याय 3, राज्य विधानमंडल में।
 - (सी) भाग XII: वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमा
 - अध्याय 1: वित्त
 - अध्याय 2: उधार लेना
 - (iv) ले० एवं हक० कार्यालयों के लिए लेखा और आंतरिक लेखा परीक्षा मामलों पर प्रश्न (सुझाई गयी किताब :- आई०टी०ए० मैनुअल)

उपरोक्त विशयक परीक्षा में जो वरिष्ठ लेखाकार बैठना चाहते हैं वे किसी भी कार्य दिवस में परीक्षा अनुभाग से आवेदन पत्र प्राप्त कर तथा उसे पूर्ण कर 04.03.2022 तक अवश्य जमा करवा दें । विलम्ब तथा अपूर्ण प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।



वरि० उप महालेखाकार / प्रशासन

संख्या:-परीक्षा/ वरि० लेखाकार/प्रो० परीक्षा/2022/89621,21,29,31,32,33,35,37,89638 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
2. सचिव, महालेखकार (लेखा एवं हकदारी)- द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
3. सहायक लेखाधिकारी /उपमहालेखाकार (प्रशासन) प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं ह०) - प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज को अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
4. वरि० लेखाधिकारी / प्रशासन / आई०टी०सी०जी०, कार्यालय प्र०म०ले (ले० एवं ह०) प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज ।
5. वरि० लेखाधिकारी/प्रशासन/सा०प्र०/डब्लू०एम०, कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं ह०) द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।
6. वरि० लेखाधिकारी/स्थापना, कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं ह०) द्वितीय, उ०प्र०, चतुर्थतल आडिट भवन, टी०सी०-35-V/1 विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ - 226010
7. सचिव, प्रधान निदेशक/क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, प्रयागराज ।
8. श्री प्रशांत मालवीय, वरिष्ठ लेखाकार, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा कार्यालय प्रधान निदेशक (लेखापरीक्षा), उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य ए०जी०सी०आर० भवन, इन्द्रप्रस्थ ए-स्टेट, नई दिल्ली-110002 ।
9. श्रीमती रचना वर्मा, वरिष्ठ लेखाकार, कार्यालय डाक व दूर संचार, लेखापरीक्षा कार्यालय लखनऊ।
10. श्रीमती दीपाश्री बनर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - प्रथम) पश्चिम बंगाल, कोलकाता।
11. श्री जय प्रकाश उपाध्याय, वरिष्ठ लेखाकार, कार्यालय सहायक कुल सचिव (प्रशासन- एन०टी०), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005
12. समस्त सूचना पट्ट।

वरि० लेखाधिकारी/परीक्षा